

## सबूत और जानकारी के संरक्षण के लिए टिप्स

आप ने कुछ ऐसा देखा या जाना होगा जो पूछताछ या कानूनी जांच में सहायक हो सकता है।

यदि संभव हो तो आप कोशिश करें और कोई भी ऐसी बात जिसे आप समझते हैं कि वह प्रासंगिक हो सकती है, नोट कर लें और जब आपकी स्मृति ताज़ा हो।

एक रिकॉर्ड रखने के लिए नीचे कुछ टिप्स दिए गए हैं जो कानूनी तौर पर उपयोगी हो सकते हैं।

लेकिन कोई भी वह दस्तावेज़ जो गवाह / उत्तरजीवी / शोक संतप्त परिवार के सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है, उसका किसी भी क्रिमिनल या सिविल कार्यवाही में और जांच / पूछताछ में खुलासा होने की संभावना है।

इसलिए, शुरुआत में, ऐसे किसी दस्तावेज़ को तैयार करने से पहले कानूनी सलाह लेना सर्वोत्तम रहेगा।

किसी वकील को खोजने में और अधिक सलाह या सहायता के लिए कृपया चैरिटी इन्क्वेस्ट ([020 7263 1111](tel:02072631111)) या नॉर्थ केंसिंग्टन लॉ सेंटर ([020 8969 7473](tel:02089697473)) से संपर्क करें।

### साक्ष्य को रिकॉर्ड कैसे करें।

1. जो आपने देखा / सुना है, उसे अपनी मातृ भाषा में तारीख और समय के क्रम में लिखें, यह स्पष्ट करें कि क्या आपने स्वयं कुछ देखा है या जानकारी किसी अन्य द्वारा दी गई, उस मामले में उस व्यक्ति की पहचान की जाएगी।
2. इस बारे में जिस किसी से भी आपने बात की है उसका नाम, काम व पदनाम और संपर्क विवरण नोट करें उदाहरण के लिए पुलिस ऑफिसर, की ऑफिसर, स्वयंसेवक, मित्र, और क्या उन्होंने उन सूचनाओं को नोट किया है जिन्हें आपने उन्हें बताया।
3. पूरी कोशिश करें कि लोगों ने जो आपको बताया इसमें वह सब शामिल न हो, जो उन्होंने देखा या सुना था। उनसे कहें कि स्वयं अपना रिकॉर्ड बनाएं और इसका अलग से एक नोट तैयार करें।
4. आपने जो देखा या सुना उसके बारे में यदि आप किसी अन्य को कुछ या संपूर्ण जानकारी देने के बारे में चिंतित हैं तो आपकी जो चिंताएं हैं उनके बारे में लिखें।
5. नोट के अंत में उस समय और तिथि को लिखें, जिस पर आप यह नोट बना रहे हैं - इस दस्तावेज़ को (हाथ से लिखा हुआ या इलेक्ट्रॉनिक) किसी सुरक्षित जगह पर रखें।
6. जैसे ही आपको कोई और बात याद आती है आप इसे दस्तावेज़ में जोड़ सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करते समय तिथि लिख लें।
7. यदि आपके पास कोई भी फ़ोटो, रिकॉर्डिंग आदि है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें डिवाइस की हार्ड ड्राइव पर सेव कर लिया जाए। यदि आप निश्चित नहीं हैं यह किस प्रकार किया जाना है तो सलाह ले लें।

आप सोच कर यह चिंतित न हों कि जानकारी उपयोगी है या नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि जितना संभव हो, उतनी जानकारी उन लोगों से एकत्रित की जाए जिन्होंने आग लगने के दिन या इससे पहले या बाद की अवधि में, सुरक्षा चिंताओं सहित आस-पास कुछ देखा या सुना हो।